



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 अग्रहायण 1933 (श0)  
(सं0 पटना 704) पटना, बुधवार, 30 नवम्बर 2011

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

28 सितम्बर 2011

सं0का0-1/वि0सं0 (सचे0, सत्तारूढल)-07-04/2011-1932—बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 12/ प0-(क0)-7006/2011 सा0प्र0-10685, दिनांक 19 सितम्बर 2011 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के उप-सचिव समकक्ष स्तर के पदाधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार (कोटि क्रमांक-798/08, गृह जिला-नालन्दा) जिला परिवहन पदाधिकारी, रोहतास की सेवा श्री नरेन्द्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, माननीय सचेतक, सत्तारूढ दल, बिहार विधान-सभा के आप्त सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र के आलोक में श्री अमरेन्द्र कुमार (बि0प्र0से0) को श्री नरेन्द्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, माननीय सचेतक, सत्तारूढ दल, बिहार विधान-सभा के आप्त सचिव के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) बिहार, पटना के पत्रांक 1169, दिनांक 02 मार्च 2001 के द्वारा निर्गत अनुदेश के अनुरूप इस विभाग द्वारा अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात् योगदान की तिथि से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

2. श्री अमरेन्द्र कुमार (बि0प्र0से0) आप्त सचिव के पद पर तब तक बने रहेंगे, जबतक श्री नरेन्द्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, माननीय सचेतक, सत्तारूढ दल, बिहार विधान-सभा, पटना में अपने पद पर बने रहेंगे। इस बीच भी आप्त सचिव के रूप में इनकी सेवा बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। सेवा समाप्ति के पश्चात् श्री कुमार अपने पैतृक विभाग में सेवा को स्वतः वापस मानते हुए योगदान करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
नवनीत रंजन तिवारी,  
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 704-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>